



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 936]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2017/चैत्र 13, 1939

No. 936]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2017/CHAITRA 13, 1939

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2017

का.आ. 1051(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30मई, 2013 और का.आ. 1192(अ) तारीख 22 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 पैरा 11 के उप पैरा (3) और (4) और पैरा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा शुद्धि-पत्र आदेश का.आ. 1993(अ) दिनांक 3 जून, 2016, का. आ. 2062(अ) दिनांक 9 जून, 2016, का.आ. 2210(अ) दिनांक 24 जून, 2016, का. आ. 2578(अ) दिनांक 1 अगस्त 2016, का. आ. 3161(अ) दिनांक 6 अक्टूबर 2016, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश के अधिक्रमण में जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी 'क' में विनिर्मित पैकों के गैर-काँच विशेष विशेषताओं सहित [का.आ. 1993(अ) दिनांक 3 जून, 2016 में गैर-पीवीसी के रूप में वर्णित] संशोधन किया, नीचे दी गई सारणी 'ख' में विनिर्दिष्ट निर्माता के विशेष उत्पाद एवं पैक आकार, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एतद्वारा थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित संशोधन करता है, जैसा कि नीचे की सारणी 'क' के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट है, अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और ईकाई (यूनिट)/पैकेजिंग सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी 'क'

सारणी : वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर संशोधित मूल्य @ (1.97186%) बढ़ाकर

क्र. सं.	औषधी का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई/पैकेजिंग	अधिकतम कीमत (रु.) (1.97186 % की दर से 1.4.2017 से प्रभावी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ग्लूकोज (ए) + सोडियम क्लोराइड (बी)	इंजेक्शन 5% (ए) + 0.9% (बी)	1000 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	75.96
2.	ग्लूकोज (ए) + सोडियम क्लोराइड (बी)	इंजेक्शन 5% (ए) + 0.9% (बी)	500 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	64.99
3.	ग्लूकोज	इंजेक्शन 5%	1000 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	72.28
4.	ग्लूकोज	इंजेक्शन 5%	500 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	62.53
5.	सोडियम क्लोराइड	इंजेक्शन 0.9%	1000 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	74.86
6.	सोडियम क्लोराइड	इंजेक्शन 0.9%	100 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	31.97
7.	सोडियम क्लोराइड	इंजेक्शन 0.9%	250 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	47.19
8.	सोडियम क्लोराइड	इंजेक्शन 0.9%	500 मिलि गैर काँच विशेष विशेषताओं सहित	66.84

सारणी 'ख'

क्र.सं.	निर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	मैसर्स बी. ब्राउन मेडिकल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	इकोपलेक प्लस बोतल इयूरोहेड सहित
2.	मैसर्स अमन्ता हेल्थकेयर लिमिटेड	स्टेरीपोर्ट बोतल
3.	मैसर्स एक्ज्यूलाइफ हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	एक्ज्यूलाइफ बोतल इयूरोहेड सहित
4.	मैसर्स एलबर्ट डेविड लिमिटेड	एलबर्ट डेविड बोतल इयूरोहेड सहित
5.	मैसर्स डेनिस केम लिमिटेड	एक्वाप्लस इयूरोहेड सहित
6.	मैसर्स क्लेरिस लाइफ साइंसेस लिमिटेड	क्लेरिस बोतल इयूरोहेड सहित
7.	मैसर्स फ्रेसनियस काबी इंडिया प्रा. लिमिटेड	फ्रीपलेक्स बेग
8.	मैसर्स ओटसूका फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मैसर्स क्लेरिस ओटसूका प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	यूनी बेग
9.	मैसर्स एशवर्मा लाइफसाइंसेस	लिफ्यूजन इयूरोहेड बोतल
10.	मैसर्स बेक्सटर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	वायापलेक्स बेग
11.	मैसर्स ओटसूका फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसे पहले मैसर्स क्लेरिस ओटसूका प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	इयूरोहेड बोतल
12.	मैसर्स फ्रेसनियस काबी इंडिया प्रा. लिमिटेड	इयूरोहेड बोतल

नोट:-

(क) अधिकतम मूल्य दिनांक 01.04.2017 से लागू हैं (अधिकतम मूल्यों में 2015 की अपेक्षा वर्ष 2016 के लिए 1.97186 प्रतिशत की थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की दर शामिल हैं)।

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के उपरोक्त उत्पाद/ब्रांड को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ग) इन विनिर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर सहित) से कम है, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ के अनुसार वर्ष 2016 के लिए 1.97186 प्रतिशत की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर अपनी विनिर्मितियों का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित कर सकते हैं।

(घ) अगर विनिर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।

(ड.) अन्य कोई भी विनिर्माता गैर-काँच विशेष विशेषताओं सहित पैक के विशेष अधिकतम कीमत के लिए अलग से दावा करता है तो उसके लिए उसे विवरण के साथ प्रमाणित करना होगा कि उसके पैक में व्यापक सुविधाओं जैसे कि (i) स्वयं सिमटने और स्वयं सिलेबिलिटी (सील लगना) (ii) एयर वेंट नहीं होने (iii) निर्माण के दौरान/संचार/एडमिक्सिंग स्तरों पर संदूषण की संभावना नहीं है के समर्थन में दस्तावेजों सहित प्रमाणित करेगा।

(च) विनिर्माता अपनी विनिर्मितियों के किसी भी अन्य विशेष विशेषताओं का दावा या अन्य पैक आकार के लिए विशेष मूल्य निर्धारण के लिए एनपीपीए में आवेदन करेगा।

(छ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। विनिर्माताओं औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरक को जारी करें।

(ज) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(झ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(न) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।

(ण) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(ट) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

(ठ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./175/43/2017/एफ/फा. सं0 8(43)/2017/डीपी/एनपीपीए.-डिवी-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****[NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY]****ORDER**

New Delhi, the 1st April 2017

S.O. 1051(E).—In exercise of powers, conferred by sub paragraph (3) and (4) of paragraph 11 and paragraph 14 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013, S.O. 1192(E) dated 22nd March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O 1993(E) dated 3rd June, 2016 read with Corrigendum order S.O 2062 dated 9th June, 2016, S.O 2210(E) dated 24th June 2016, S.O 2578(E) dated 1st August 2016, S.O. 3161(E) dated 6th October 2016 in so far as they relate to formulation packs of Non-Glass with special features (mentioned as Non-PVC in S.O. 1993(E) dated 3rd June 2016) mentioned in the Table A herein below, manufactured by the manufacturers specified in Table B for specified products and pack-sizes, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby revises the price based on Wholesale price index (WPI) of 2016 as specified in column (5) of the Table A herein below as separate ceiling price exclusive of local tax applicable, if any in respect of the scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form and strength and unit/packaging specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

Table A: Price Revision as per Annual Wholesale Price Index (WPI) @ 1.97186% increase.

Sl No	Medicines	Dosage form and Strength	Unit/packaging	Ceiling price (wef 01.4.2017 with WPI @ 1.97186%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Glucose (A) + Sodium Chloride (B)	Injection 5% (A) + 0.9% (B)	1000ml Non Glass with special features	75.96
2.	Glucose (A) + Sodium Chloride (B)	Injection 5% (A) + 0.9% (B)	500ml Non Glass with special features	64.99
3.	Glucose	Injection 5%	1000ml Non Glass with special features	72.28
4.	Glucose	Injection 5%	500ml Non Glass with special features	62.53
5.	Sodium Chloride	Injection 0.9%	1000ml Non Glass with special features	74.86
6.	Sodium Chloride	Injection 0.9%	100ml Non Glass with special features	31.97
7.	Sodium Chloride	Injection 0.9%	250ml Non Glass with special features	47.19
8.	Sodium Chloride	Injection 0.9%	500ml Non Glass with special features	66.84

TABLE 'B'

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product /Brand Name
(1)	(2)	(3)
1.	M/s B.Braun Medical (I) Pvt Ltd.	Ecoflac Plus bottle with Eurohead
2.	M/s Amanta Healthcare Ltd.	Steriport bottle
3.	M/s Aculife Healthcare Pvt Ltd.	Aculife bottle with Eurohead
4.	M/s Albert David Limited	Albert David bottle with Eurohead
5.	M/s Denis Chem Limited	Aquapulse with Eurohead
6.	M/s Claris Life Sciences Limited	Claris bottle with Eurohead
7.	M/s Fresenius Kabi India Pvt Limited	Freeflex bags
8.	M/s Otsuka Pharmaceutical India Private Ltd. (previously known as Claris Otsuka Private Limited)	Unibag
9.	M/s Aishwarya Lifesciences	Lifusion Eurohead bottle
10.	M/s Baxter (India) Pvt. Ltd.	Viaflex bags

11.	M/s Otsuka Pharmaceutical India Private Ltd. (previously known as Claris Otsuka Private Limited)	Eurohead bottle
12.	M/s Fresenius Kabi India Pvt Limited	Eurohead bottle

NOTE :

- (a) The ceiling prices are applicable with effect from 01.4.2017 (ceiling prices are inclusive of Wholesale Price Index (WPI) @ 1.97186% for the year 2016 over 2015).
- (b) The manufacturers of scheduled formulations, selling abovesaid products/brandname of scheduled formulations at price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any.
- (c) The manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table (plus local taxes as applicable, if any), may revise the existing M.R.P. of their formulations, on the basis of WPI @ 1.97186% for year 2016 in accordance with paragraph 16(2) of DPCO, 2013, read with para 13(2) of DPCO, 2013.
- (d) The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (e) Any other manufacturer claiming separate ceiling price for Non-Glass with special feature shall apply to NPPA for separate ceiling price approval with details and demonstrate, that such pack has all of the features as (i) self collapsibility and self-sealability (ii) not having air-vent; and (iii) there is no chance of contamination during manufacture/infusion/admixing levels alongwith documentation and demonstration.
- (f) For other special features claimed or any other pack size manufactured, the manufacturer shall approach the NPPA for specific price approval for its formulation.
- (g) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (h) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (i) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (j) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (k) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (l) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/175/43/2017/F./F. No. 8(43)/2017/D.P./NPPA-Div.II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director